

The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai – 400 023 Scrip Code-532178	The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai-400051 Symbol-ENGINEERSIN
--	---


विषय: समाचार पत्र विज्ञापन - आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के अनिवार्य हस्तांतरण के लिए सूचना
Sub: Newspaper Advertisement – Notice for compulsory Transfer of Equity shares to IEPF Authority

प्रिय महोदय/महोदया,
Dear Sir/Madam,

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement regarding Notice for compulsory Transfer of Equity shares to IEPF Authority published on 13.01.2022.

कृपया उपरोक्त को रिकॉर्ड में लें।
Kindly take the above on record.

भवदीय/Very truly yours,



नरेंद्र कुमार/ Narendra Kumar
अनुपालन अधिकारी/Compliance Officer

संलग्नक: यथोक्त/Encl: As above

S. E. RAILWAY TENDER
e-Tender Notice No. - CKP-SOUTH-21-22-14, Dated: 11.01.2022. Divisional Railway Manager (Engg.), South Eastern Railway, Chakradharpur and on behalf of the President of India invites E-tenders against open tender. Manual offers are not allowed against this tender and any such manual offer received shall be ignored. Name of work :- Execution of Track Maintenance work under SSE(PWay)/BJMD for period ending upto 30.09.2023 (i.e. for two years) under the jurisdiction of DEN/South/CKP (2nd call). **Tender Value :** ₹ 2,69,73,023.96. **EMD :** ₹ 2,84,900/- **Cost of tender form:** ₹ 0/-. **Date of opening :** 03.02.2022. The tender can be viewed at website <http://www.ireps.gov.in>. The tender/bidders must have Class-III digital signature certificate & must be registered under IREPS Portal. Only registered tenderer/bidder can participate on e-tendering. (PR-552)

Hindustan Steelworks Construction Limited
 A Subsidiary of NBCC (India) Limited
 Corporate Office: 3rd Floor, NBCC Square, Plot No. III/F2, Action Area-III, Newtown (Rajrajah), Kolkata - 700135 (W.B.)
CPG DIVISION
EXPRESSION OF INTEREST
No.HSCL/CPG/EOI/CONS/2022/e-228
 Online Expression of Interest is invited for "Pre-Qualification of Contractors for execution of various upcoming/pipeline Projects reg. Repair/Renovation/Construction/Interior Works in Delhi-NCR zone" for monetary groups up to Rs. 20 Cr. EOI documents/Corrigendum (if any) etc. are available at <http://eprocure.gov.in> **eprocure/app**. Last date of online submission: **03.02.2022 upto 2:00 p.m.**
Advt. No. 2021-22/219 **Head (CPG)**
CIN No. U27310WB1964 GOI026118
Website: www.hsclindia.com

NORTH WESTERN RAILWAY
E-TENDER NOTICE
 DRM / Electrical, North Western Railway, Jodhpur for & on behalf of the president of India, invites E-tender for the following work. **1. Complete details of tenders can be seen on Website No :-** <http://www.ireps.gov.in>. **2. Date & time of closing of e-tender:-** 04.02.2022 up to 15.00 hrs. **3. Date & time of opening of e-tender:-** After 15.00 hrs. on 04.02.2022 **Tender No.:-16 / 2021-22. Name of Work:** Electrical work in c/w Essential Infrastructure facilities for ART/ARME sidings at Jodhpur & Provision of SPART (03 coaches) siding along with its infra facilities at JSM and Provision of all weather Rolling In/Out hut for JU, JUD, BGKT, BME and JSM Station of JU Division. **Approx. Cost of the work (Rs.) :** Rs. 48,15,690.36. **Tender No.:** 17 / 2021-22. **Name of Work:** Electrical work in c/w Up gradation of station, improvement of circulating area, Facade and other misc work at LAU station of JU Division and Provision of Parcel shed at BGKT & Provision of high mast tower at goods shed station of JU Division. **Approx. Cost of the work (Rs.) :** Rs. 22,18,213.97. **Tender No.:** 18/2021-22. **Name of Work:** Electrical work in connection with provision of interlocking of 19 manned level crossing gates over Jodhpur division NW Railway. **Approx Cost of the Work (Rs.) :** Rs. 45,07,799.45. For detailed information visit <http://www.ireps.gov.in> 793-SR27
 Please join us on www.facebook.com/NWRRailways

FORM NO. CAA. 2
 Pursuant to Section 230(3) of Companies Act, 2013 read with rule 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.
BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI
CA (CAA)-63/230/232/ND OF 2021
 In the matter of Companies Act, 2013 And In the matter of Sections 230 to 232 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013; And In the matter of Scheme of Amalgamation of Lifestar Pharma Private Limited and Magnet Labs Private Limited with Mankind Pharma Limited and their respective shareholders and creditors;
Lifestar Pharma Private Limited,
 A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office - 208, Okhla Industrial Estate, Phase - 3, New Delhi, South Delhi, Delhi, 110020. ----- **Transferor Company 1**
Magnet Labs Private Limited,
 A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office - 208, Okhla Industrial Estate, Phase - 3, New Delhi, South Delhi, Delhi, 110020. ----- **Transferor Company 2**
Mankind Pharma Limited,
 A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at - 208, Okhla Industrial Estate, Phase - 3, New Delhi, South Delhi, Delhi, 110020. ----- **Transferee Company**

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF MANKIND PHARMA LIMITED (TRANSFEREE COMPANY)
 Notice is hereby given that vide order dated January 03, 2022, The Hon'ble New Delhi Bench of National Company Law Tribunal ("Tribunal") has directed the holding of meeting of the Equity Shareholders of Mankind Pharma Limited ("Transferor Company") for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed amalgamation embodied in the Scheme of Amalgamation of Lifestar Pharma Private Limited and Magnet Labs Private Limited with Mankind Pharma Limited and their respective shareholders and creditors ("Scheme").
 In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of Transferor Company will be held on Saturday, 19th February, 2022 @ 11:30 A.M. IST ("Meeting") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") at which day date and time the Equity Shareholders of the Transferor Company are requested to attend. The link to join the meeting through VC/OAVM shall be shared at the registered email addresses of the said Equity Shareholders well before the said meeting.
 Copies of the said Scheme and of the statement under Section 230 of the Companies Act, 2013 ("Act") can be obtained free of charge at the registered office of the Transferor Company and/or by making a request at pradeep.chugh@mankindpharma.com ("said email"). Person(s) entitled to attend and vote at the meeting, may either vote in person or through proxy through show of hands. Provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferor Company or electronically on the said email not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy be had/obtained at the registered office of the Transferor Company or by making a request on the said email. Corporate members/bodies corporate/trusts are entitled to appoint their authorized representatives to attend the Tribunal convened Meeting through VC/OAVM on their behalf and participate therein including vote on the items thereat. Such duly certified board resolution/authority letter shall reach the registered office or on the said email well before the said meeting.
 The Tribunal has appointed Advocate Milan Singh Negi as Chairperson, Advocate Prateek Gupta as Alternate Chairman and Mr. Prabhakar Kumar, Practising Company Secretary as Scrutinizer of the said Meeting. The above-mentioned Scheme, if approved in the Meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.
 Dated: January 13, 2022 Sd/- Milan Singh Negi
 Place: New Delhi Chairperson Appointed for the Meeting

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
 Circle Office, Gurugram GSAD Department
 Plot no 5, Ground Floor, Institutional Area, Sector -32, Gurugram
PREMISES REQUIRED
 Punjab National Bank invites offers from the owners of suitable premises for opening of ATM at the following place on ground floor with minimum 10 feet frontage and having total carpet area of 80 sq.ft. along with free of cost space for parking of vehicles, installation of UPS with all facilities including adequate power supply.

Name of the center	District	State/U.T.	Approx. area required
Experian Heartsong, Sector-108, Gurugram	Gurugram	Haryana	80 sqft (+/- 20%)

 Only constructed building ready for occupation are required. The offerer has to modify the civil work as desired by the Bank at his or her own cost and should have certificate/permission to utilize the premises commercially. 3 phase power connectors with proper earthing is to be arranged by the offerer on the acceptance of the proposal by the Bank. Owner is to directly deal with the Bank and Bank will not entertain property dealers / agents in this regard. Offers received through property dealers will not be accepted.
 Intending offers shall collect Technical Bid and Financial Bid formats (from GAD department Circle Office, Gurugram during office hours from 10.00AM till 5.00PM or may be downloaded from Bank's website) and submit their offers in two separate sealed covers super scribed Technical Bid (having full details of the property, map, floor area etc.) and Financial Bid (having rate per sq. ft. and other terms of the lease) on or before 27.01.2022 up to 2.00PM with copy of sketch plan of the offered premises along with proof of ID and ownership papers etc. Name, address, phone/mobile numbers of the owner/power of attorney holder must be mentioned on both envelopes.
 The Bank reserves its right to accept or reject any or all the proposals without assigning any reason thereof.
Circle Head

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड **ENGINEERS INDIA LIMITED**
 (संस्था चरित्रक का उद्यम) (A Govt. of India Undertaking)
 Regd. Office: Engineers India House, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066
 Phone: 011-26762121, Fax: 011-26178210, e-mail: companysecretary@eii.co.in
 Website : <http://www.engineersindia.com>, CIN: L74899DL1965GOI004352

NOTICE
Compulsory Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority
 This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by Ministry of Corporate Affairs and as amended from time to time which requires that all shares, in respect of which dividends have not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall be transferred to IEPF Authority. Further, as per the IEPF Rules as amended, full details of all unpaid or unclaimed dividends are regularly uploaded on the website of the Company, and with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
 The Company has sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address for claiming the unclaimed dividends due from the financial year 2014-15 (Interim Dividend) onwards. The full details of such shareholders are also uploaded on the Company's website at www.engineersindia.com. The Interim Dividend 2014-15 which remained unclaimed/unpaid is also liable for transfer to IEPF. The details of those shareholders are also available on our website.
 In case, we do not receive your claim as per the above said communication by 17.04.2022 (IST 5.00 pm), all your relevant shares (whether held in physical or electronic form) will be transferred by the Company to the Demat Account of IEPF Authority within 30 days from the due date of transfer in accordance with the notifications/circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time, without any further notice.
 The shareholders may please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares and dividends thereof credited to the Demat Account of IEPF Authority and subsequent to such transfer of shares to IEPF Authority, all future benefits which may accrue thereunder, including future dividend(s), will be credited to IEPF Authority. You may note that, after the above referred transfer is made, refunds from the IEPF Authority can be claimed only by complying with the provisions of aforesaid Rules and a link in this regard has been given on the website of the Company under Investor Section.
 For further clarifications or assistance, you may write to us at:

(i) Mr. Virender Sharma
 Asst Manager
 Unit: Engineers India Limited
 M/s. Alankit Assignments Limited
 205-208, Anarkali Complex,
 Jhandewalan Extension,
 New Delhi-110055
 Email ID: virenders@alankit.com
 Tel: 011-42541234

(ii) Mr. S.K. Padhi
 Company Secretary
 Engineers India Limited
 El House, 1, Bhikaji Cama Place
 New Delhi-110066
 Email ID: company.secretary@eii.co.in
 Tel: 011-26762121

For Engineers India Limited Sd/- S.K. Padhi
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 12th January, 2022

Appeal to Members
 We solicit the members to register their email ids/bank mandate/mobile no. with Registrar and Share Transfer Agent of the Company or to the concerned DP for receiving the Annual Report/Dividend (if any) and other correspondences from the Company through Online modes.

Business Standard
DELHI EDITION
 Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002
 Editor : Shailesh Dobhal
 RNI NO. 57376/1994
 Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in
 Ph. 011-23720202, Fax: +91-11-23720201
 For Subscription and Circulation enquiries please contact:
Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations
 Business Standard Private Limited.
 H/4 & 13, Building 11 Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P8 Marg, Worli, Mumbai - 400013
E-mail: subs_bs@bsmail.in
***or sms, REACHES TO 57575**
DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.
 Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim directed to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.
 Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.
No Air Surcharge

FORM NO. CAA. 2
[Pursuant to Section 230 (3) of the Companies Act, 2013 r/w Rule 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016]
Before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Division Bench-I, Chennai
In the matter of M/s. Anandram Developers Private Limited (ADPL), Company Under Liquidation
CA(CAA)/5/2021 in CP/603/(IB)/2017
In the matter of Section 230 of the Companies Act, 2013 read with Section 33, 53 & 60 (5) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulation 32 of Insolvency & Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016
NOTICE
 Notice is hereby given that by an Order dated the 26th day of November, 2021, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Division Bench-I, Chennai, has directed a "Stakeholders Committee Meeting" of ADPL, Company Under Liquidation, for approving the Composite Scheme of Arrangement proposed by Mr. Gaurav Agarwal with Mrs. Anu Agarwal with the Creditors of Anandram Developers Private Limited.
 In pursuance of the aforesaid Order and as directed therein, a "Stakeholders Committee Meeting" of ADPL will be convened electronically (via video conferencing facilities) on Saturday, the 12th day of February, 2022 at 3.00 P.M. at which time and place the Secured Financial Creditors and the other Authorized Representatives appointed for this purpose for each class or category of Stakeholders are requested to attend the Meeting.
 Copies of the said Composite Scheme of Arrangement or Compromise proposed by Mr. Gaurav Agarwal with Mrs. Anu Agarwal, with the Creditors of ADPL can be obtained free of charge at the office of the Liquidator, Mrs. Santhanam Rajashree, No. 23, Lake Area, 3rd Cross Street, Nungambakkam, Chennai 600034 or electronically through mailing to rajashrees66@gmail.com.
 The Hon'ble National Company Law Tribunal has appointed Mrs. Santhanam Rajashree as the Chairman of the Stakeholders Committee Meeting of ADPL. The above mentioned Scheme of Arrangement or Compromise will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Division Bench-I, Chennai.
 Dated this 12th day of January, 2022 at Chennai.
 ---/Sd/---
SANTHANAM RAJASHREE
 Chairman appointed for the Meeting - Liquidator of ADPL
 IBBI Regn No: IBBI/PA-002/IP-N00330/2017-18/10935

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. LTD.
CIN - U67100MH2007PLC174759
 Edelweiss House, Off C.S.T Road, Kalina, Mumbai - 400 098.
APPENDIX- II-A [Refer proviso to Rule 6(2)]
AUCTION NOTICE FOR SALE OF INTANGIBLE SECURED ASSETS
 E-Auction Sale Notice for Sale of Intangible Secured Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI ACT") read with proviso to Rule 6(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").
 The Authorised Officer of EARC, under the SARFAESI ACT and in exercise of powers conferred under Section 13(12), have issued Demand Notice under section 13(2) read with Rule 3 of Rules dated October 20, 2020, calling upon the Borrower/ Mortgagee/Guarantors to repay the outstanding amount of Rs. 857, 62, 64, 033 (Rupees Eight Hundred Fifty Seven Crores Sixty Two Lakhs Sixty Four Thousand and Thirty Three Only) as on 30th September 2020 together with further interest and costs thereon within 60 days.
 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Guarantor(s) that the below described intangible secured asset hypothecated/pledged/charged to the Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by Authorised Officer of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited, acting in its capacity as Trustee of EARC Trust SC 120, SC 128, SC 129, SC 122, SC 134, SC 176, SC 230 and SC 237 ("EARC") viz. the Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" through Public E- Auction on Dt. January 31, 2022 for recovery of Rs. 857, 62, 64,033 (Rupees Eight hundred Fifty Seven Crores Sixty Two Lakhs Sixty Four Thousand and Thirty Three Only) as on 30th September 2020 together with further interest and other cost/expenses being due to the Secured Creditor i.e. EARC from the Borrower i.e. Arshiya Rail Infrastructure Limited and the Guarantors i.e. 1) Arshiya Limited; 2) Mr. Ajay Mittal and 3) Ms. Archana Mittal.
 The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.
The details for E- Auction shall be as follows:

Sr. No.	Reserve Price (Rs. In Crore)	Earnest Money Deposit (EMD) (Rs. In Crore)	Last Date of Submission of Expression of Interest	Date of E- Auction
1	12	1.2	25.01.2022	31.01.2022, 2 PM.

*Above price doesn't include applicable taxes including GST & TCS which is to the account of the buyer
Description of Intangible Secured Assets put for e-Auction
 Category - I - Pan - India Rail Licence (RAIL LICENCE) under Concession Agreement dated 9th May, 2008. The right, title, benefits, claims, demand and interest of the borrower into and under all of the Project Documents executed by the Borrower with the Railway Administration arising from, in relation to and to give effect to the Concession Agreement dated 9th May, 2008
 For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in EARC's website i.e. <https://www.edelweissarc.in/PropertySale.aspx>
 For further information, you may contact through phone on Contact No. +91 9029109681 and/or through e-mail on Ketur.shah@edelweissarc.in / Vineet.aggarwal@edelweissarc.in
Date: 13/01/2022 Sd/- Authorized Officer
Place: Mumbai For Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

YES BANK Registered Office: YES BANK LIMITED, YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai - 400055
PUBLIC AUCTION OF GOLD SECURITY PLEDGED
 The borrower, in particular and the public, in general, are hereby notified that public auction of gold ornaments/security pledged in the below accounts is proposed to be conducted. The auction is of the gold ornaments/security of borrowers who have defaulted to pay, as per the terms of Loan Agreement signed & accepted by them, despite notices by YES BANK Limited (the "BANK") to clear the loan dues. The Bank had also issued notice to the borrowers whereby, 7 days' time was given to repay the entire outstanding dues in the below accounts, failing which Bank would be at liberty to auction the entire pledged gold security without issuing further notice. The borrowers have neglected and failed to make payment, therefore, bank in exercise of its rights under the loan agreement as a pledged has decided to enforce the pledged over gold security by selling the gold ornaments/security by way of auction and recover the dues owed by borrowers to the Bank.
The auction will be conducted on our empaneled online portal <https://gold.samil.in> on 19th January, 2022

Loan No	Customer Name	Branch Name	Location	Date of Loan	Closure Amount (₹)	Auction Date
GLN010500689033	Arvind Kumar Mishra	Sector 14 Gurgaon	New Delhi	17-Oct-20	108773/-	19-Jan-22
GLN006100763520	Saket Ajharuddin	Saket	New Delhi	02-Feb-21	170789/-	19-Jan-22
GLN023600733973	Pappu Ram Bairwa	Preet Vihar	New Delhi	23-Dec-20	60947/-	19-Jan-22
GLN008500684164	Sumita Mishra	Atta	New Delhi	08-Oct-20	170797/-	19-Jan-22
GLN005500670626	Vikram Kumar	Green Park	New Delhi	11-Sep-20	275853/-	19-Jan-22
GLN008300835107	Anjum Monabbar	Model Town	New Delhi	18-May-21	51420/-	19-Jan-22

The auction shall be conducted on an "AS IS WHERE IS" and the "AS IS WHAT IS" basis and the BANK is not making and shall not make any representation or warranties as regards the quality, purity, caratage, weight or valuation of the said gold ornaments.
 It shall be the sole and absolute responsibility of the potential purchasers to verify, examine and satisfy themselves about the quality, purity, caratage, weight or valuation of the said gold ornaments prior to making payments. It shall be open to potential purchasers to examine, at their sole cost and expense, and at the address set out hereinabove, the gold ornaments whether with or without expert advice.
 All bids shall be subject to such minimum reserve price as the Bank may deem fit to fix in this regard. The auction process and the sale (if any) pursuant to such auction shall be subject to such further terms and conditions at the sole discretion of the Bank. If the borrower (s) mentioned above pays the amount dues outstanding against his loan account in full before/after the auction, bank may withdraw the loan from the said auction without any further notice. Please note that it is absolute discretionary power of the undersigned authorized officer of the Bank, either to postpone or to cancel the auction proceedings without prior notice and without assigning any reason including right to reject any or all the bids or offers without assigning any reason for same.
 Sd/- (Authorized Officer)
Yes Bank Limited
Place : New Delhi, Date : 13.01.2022

Ehboklang Kharumnuid, MHJS
 REGISTRAR GENERAL
 HIGHCOURT OF MEGHALAYA
 M.G.Road, Shillong -793001
 Phone: 0364 - 2226675(O)
 Mobile: 9612160060
 Fax: 0364 - - 2500064
 E-mail: highcourtmeghalaya@gmail.com

PRESS NOTICE
 As part of the eCourts project, eCommittee, Supreme Court of India has taken several initiatives out of which one is the virtual court for traffic Challan cases. Virtual court is a concept aimed at eliminating presence of litigant or lawyer in court and adjudication of the case online Under the leadership of Hon'ble Mr. Justice Sanjib Banerjee, Hon'ble the Chief Justice, High Court of Meghalaya and with the support from Hon'ble Mr. Justice H.S. Thangkhiew and Hon'ble Mr Justice W. Diengdong, Hon'ble member Judges of the Computer Committee, High Court of Meghalaya, the High Court has completed the process of setting up of infrastructure and system in place for implementation of virtual court for traffic Challan cases for the State of Meghalaya.
 The High Court of Meghalaya has notified one court as the virtual court for traffic eChallan cases for the State of Meghalaya vide notification No. HCM.1/105/202/Estt.2965Adated Shillong the 6th October, 2021.
 Virtual court for traffic challan cases have been enabled for seven police stations of East Khasi Hills District and the other police station in the State of Meghalaya will be enabled as and when the Challans implemented for the same.
 Virtual court for traffic violation cases provide a convenient option for citizens to pay traffic fines online, resulting in an efficient and seamless method of dealing with traffic challan cases. The details of the vehicle owned by those who violate the traffic rules will be registered through the e Challans system by the Police Department and the Transport Department. The Court will initiate the process of such violations are reported to the virtual court through the e Challans system.
 The violator will be able to examine the charges that have been invoked, prior to payment of the fine, when the summons is generated and the link sent to the mobile number of the violator. The violator will give the option of payment of fine through the online portal or the violator can choose to contest the case and the same will be referred to the regular court for trial. The jurisdiction of the regular court which will deal with the trial of the cases referred from the virtual court software shall depend on the location of the place of commission of the crime.
 The portal to access virtual court for traffic eChallan cases is <https://vcourts.gov.in> The violator may search for their case using the party name, mobile number, CNR Number or vehicle number.
 Sd/-
M.I.P.R.No:1701 Dated: 12 -01-2022
Registrar General

Haryana Shehri Vikas Pradhikaran
Offer e-Auctions of
Residential, Commercial, Nursing Home, School, Hospital & Various Other Sites In all zones
from 18th January, 2022 to 30th January, 2022

e-Auction Portal
<https://hsvphry.org.in>
e-Auction will start at 10:00 AM on schedule date of e-auction.

Registrations will close one day before the scheduled dates of e-Auction, at 5 pm.

Sr No.	Date	Zone	Category
1	18th January, 2022	Rohtak Zone	Residential and Commercial
2	19th January, 2022	Hisar Zone	Residential and Commercial
3	20th January, 2022	All Zones	Nursing Home
4	21st January, 2022	Gurugram & Panchkula Zones	Residential and Commercial
5	22nd January, 2022	All Zones	Special Preferential/ Preferential Plots
6	27th January, 2022	Faridabad Zone	Residential and Commercial
7	28th January, 2022	Gurugram & Panchkula Zones	Residential and Commercial
8	30th January, 2022	All Zones	School, Hospital, Hotel, Commercial Tower, Shopping Mall & Institutional Sites

Loan Facility From Leading Banks*
 *Terms And Conditions Applicable

For any queries email us at eauctionquery.hsvp@gmail.com
 Helpline Number: 8360516607 (9 AM to 5 PM), 1800-180-3030 (8AM to 8 PM)

Chief Administrator
Haryana Shehri Vikas Pradhikaran
 C-3, HSPV Complex, Sector 6, Panchkula 134 109, Haryana
hsvphry.org.in | 1800-180-3030 | HsvPhry

The detailed information of the sites and terms & conditions of e-phry will be available on <https://hsvphry.org.in>.

